

भित्ति चित्रण

इस लेख के लिए कैलगरी पुलिस सेवा भित्तिचित्र समन्वयक कांस्टेबल डेव लेडिक को विशेष धन्यवाद।

किसी भी तरह के आंकड़े, अक्षर, चित्र या स्टिकर जो किसी भी परिसर, निर्माण या अन्य संपत्ति की सतह पर अस्पष्ट लेख, खरोंच, उकेरा हुआ, स्प्रे के रूप में या तो छिपकाया जाता है या लगाया जाता है, उसे या भित्तिचित्र गुंडागिरी कहा जाता है। यह स्प्रे पेंट, मार्कर, नक्काशी और कलम आदि तरीकों से किया जा सकता है। मालिक की अनुमति के बिना किया गया भित्तिचित्र गुंडागिरी होती है जो गंभीर परिणाम के साथ आने वाला एक अपराध है। भित्तिचित्र गुंडागिरी अपने समुदाय की गिरावट की शुरुआत है। अधिकांश भित्तिचित्र गुंडागिरी गिरोह से संबंधित नहीं है, लेकिन भित्तिचित्र गुंडागिरी को अनियंत्रित छोड़ देने से, क्षेत्र में अन्य आपराधिक गतिविधियों शुरू हो सकते हैं क्योंकि समुदाय की धारणा यह होगी कि कोई परवाह नहीं करता है या कोई क्षेत्र का ख्याल नहीं रख रहा है।

भित्तिचित्र गुंडागिरी 311 को सूचित किया जाना चाहिए।

भित्तिचित्र गुंडागिरी अपने पड़ोस के समग्र मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गिरावट की ओर जाता है। यह गुंडागिरी है और संपत्ति का विनाश है। अगर भित्तिचित्र गुंडागिरी जल्दी से हटाया नहीं जाता है, तो यह निष्क्रियता कम पड़ोस अभिमान का चिन्ह माना जा सकता है और अन्य इमारतों, सड़कों और संपत्ति में भित्तिचित्र गुंडागिरी फैल जाएगा। संपत्ति मूल्यों में घटाव होगा, नागरिकों को समुदाय के भीतर सार्वजनिक स्थलों का आनंद लेने में असुरक्षा और डर महसूस होगा और स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव पड़ेगा।

आप क्या कर सकते हैं:

1. क्षति की तस्वीर (अगर संभव हो तो) लेने के द्वारा भित्तिचित्र गुंडागिरी रिकॉर्ड हो सकता है
2. स्थान या इलाका पर ध्यान दें
3. 311 को फोन करके भित्तिचित्रों का रिपोर्ट कीजिए
4. अगर यह अपनी संपत्ति पर है तो भित्तिचित्रों निकालें; अगर नहीं तो संपत्ति के मालिक की अनुमति के साथ निकालें। जितना ज्यादा देर तक उसे सब के नज़र में देखने के लिए छोड़ा जाएगा, क्षेत्र में अन्य भित्तिचित्रों का प्रकट होने का उतनी अधिक संभावना है।

भित्तिचित्र गुंडागिरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.graffitifreecalgary.ca पर जाएँ और यह कि आप अपने समुदाय में

भित्तिचित्र गुंडागिरी के मामले में कौनसे बदलाव ला सकते हैं।